

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 10, 2013/पौष 20, 1934

No. 16]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2013/PAUSA 20, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योद्धक पशु-चिकित्सा के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योद्धक पशु-चिकित्सा अधिकारी, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरम्भिक गठन.—(1) इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे कार्मिक जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पहले नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पहले उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्मिक को नियमित निरन्तर सेवा की संरचना अपनी-अपनी श्रेणियों में परीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि के लिए अर्हक सेवा और सेवा में पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षधार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सक प्रवर्ग श्रेणी-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "श्रेणी-1" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर श्रेणी (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदक्षित दिए गए कामकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :—

- एस - मनोवैज्ञानिक
 एच - श्रवण शक्ति
 ए - उपांग (अपैन्डेजेस)
 पी - शारीरिक क्षमता
 ई - दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यत्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का समझावण मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

(क) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग आवश्यक है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या स्थितिक कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी शृंखला पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की दुरुस्ती के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. **अधिवर्षिता.-** इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

8. **अन्यदेशीय अपात्रता.-** कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन पर वर्जित नहीं की जाएगी।

9. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **सेवा का दायित्व.-** इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

11. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, जिसका अर्थ है, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संविधान में उल्लेख-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उपमहानिरीक्षक (पशु चिकित्सा)	01* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसूचित (योधक)	वेतन बैंड-4 (37400-67000रू.) प्लस ग्रेड वेतन 8900 रू. (प्लस सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ता)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-4 के साथ ग्रेड वेतन 8700/-रू. में ऐसे कमांडेंट (पशु चिकित्सा) जिन्होंने समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की सेवा के अध्यधीन उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. विशेष सचिव या सचिव, गृह मंत्रालय : अध्यक्ष	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अतिरिक्त सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>2. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य</p> <p>3. किसी अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन के महानिदेशक : सदस्य</p> <p>4. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय : सदस्य</p>	<p>टिप्पण-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा दो सप्ताह करण प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी द्वारा, कनिष्ठ ग्रेड से पहले या उस ग्रेड से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिश, पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अन्यन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण-3: चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में होना चाहिए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काष्ठ में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000रु.) ग्रेड वेतन 8700रु. में दो वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन या समतुल्य में बैचलर डिग्री हो।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उत्तरी किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का संधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे निर्मुक्त या सेवानिवृत्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा जो पशु चिकित्सा सेवा में सदृश पद या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हों।</p> <p>टिप्पण: सशस्त्र बलों के ऐसे अधिकारियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बन्धनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त या सेवानिवृत्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (संगठन में पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)</p> <p>चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. कमांडेंट (पशु चिकित्सा)	03* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन ड-4 (37400-67000रू.) प्लस ग्रेड वेतन 8700/-रू. (प्लस सरकार द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ता)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	<p>प्रोन्नति: (i) सशस्त्र सीमा बल के वेतन बँड-3 के साथ ग्रेड वेतन 6600/-रु. में ऐसे उप कमांडेंट (पशु चिकित्सा) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है, प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।</p> <p>(ii) वेतन बँड-3, के साथ ग्रेड वेतन 7600/-रु. में ऐसे विद्यमान सेकेंड-इन-कमान (पशुचिकित्सा) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।</p> <p>टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अन्यन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह के विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय : सदस्य 4. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>टिप्पण-3: चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में होना चाहिए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100रू.) ग्रेड वेतन 7600रू. में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान या पशुपालन या समतुल्य में बैचलर डिग्री हो।</p> <p>टिप्पण-1: पाषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को अपने द्वारा नियुक्ति के लिए आधार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को दावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण -4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		

(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
			<p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे निर्मुक्त या सेवानिवृत्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा जो पशु चिकित्सा सेवा में सदृश पद या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हों।</p> <p>टिप्पण: सशस्त्र बलों के ऐसे अधिकारियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बन्धनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त या सेवानिवृत्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (संगठन में पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)</p> <p>चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में होना चाहिए।</p>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप कमांडेंट (पशु चिकित्सा)	06* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीध (योग्य)	वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) प्लस ग्रेड वेतन 6600/-रु. (प्लस सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ता)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल में ऐसे सहायक कमांडेंट (पशु चिकित्सा) जिन्होंने वेतन बैंड-3 के साथ ग्रेड वेतन 5400/-रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण-3: चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में होना चाहिए।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय : सदस्य 4. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक कमांडेंट (पशु चिकित्सा)	33* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह राजपत्रित, अननुसूचीय (योग्य)	वेतन बैंड-3 (15600-39100₹.) प्लस ग्रेड वेतन 5400/-₹. (प्लस सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ता)	लागू नहीं होता	आयु पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 23 और 35 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण-1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(1) आवश्यक: (क) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन या समतुल्य में बैचलर डिग्री हो और जो भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकृत हो। (2) शारीरिक मानक: (क) पुरुष के लिए: ऊँचाई: 165 से.मी. छाती: 81 से.मी. (बिना फुलाये) 86 से.मी. (फुलाये पर) वजन: 50 कि.ग्रा. (ऊँचाई के अनुपात के अधीन) (ख) महिला के लिए: ऊँचाई: 157 से.मी. छाती: लागू नहीं होता वजन: लम्बाई के अनुसार परंतु 46 कि. ग्रा. से कम न हो) टिप्पण-1: गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम प्रवर्गों से आने वाले, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्व-उत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम मानक जहाँ तक उसका संबंध ऊँचाई से है पुरुषों के लिए शिथिल करके 160 से.मी. तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 से.मी. तक की जा सकती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>टिप्पण-2: आदिवासियों या मिजो और नागा जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम मानक जहाँ तक उसका संबंध ऊँचाई से है पुरुषों के लिए शिथिल करके 157.5 से.मी. और महिलाओं के लिए 149.5 से.मी. तक की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-3: छाती के मापन के संबंध में न्यूनतम मानक गढ़वाली, कुमाउंजी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्व-उत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 160 से.मी. की ऊँचाई वाले पुरुषों के लिए 79-84 से.मी. और आदिवासियों और जनजातियों के लिए जिनकी ऊँचाई 157.5 से.मी. है 77 से.मी. बिना फुलाये और फुलाने पर 82 से.मी. तक की जा सकती है।</p> <p>(ii) चिकित्सीय मानक: दृष्टि (बिना चश्मा पहने या चश्मा पहनने पर) दूर दृष्टि निकट दृष्टि अच्छा खराब अच्छा खराब आँख आँख आँख आँख 6/6 6/12 6/6 6/12 या 6/9 6/9 अभ्यर्थी को मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, अंतस्फीत शिरा या दृष्टि तिर्यक (भेंगापन) नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का इशहारा परीक्षण तथा एडिच-ग्रीन तैटर्न परीक्षण द्वारा रंग दृष्टि का परीक्षण किए जाएगा। उन्हें अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्य के दक्षतपूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।	लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल : अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य 3. उप सचिव, गृह मंत्रालय : सदस्य 4. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल : सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 4/3/एसएसबी/सीएससी/वाहिनी/एसएफएस/11]

क. के. मित्तल, संयुक्त सचिव (पुलिस-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2013

G.S.R. 17(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Combatised Veterinary posts in the Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Group 'A' Combatised Veterinary Officers, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**- The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Initial constitution.**- (1) Personnel holding the posts specified in the Schedule annexed herein, immediately before commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred in sub rule (1) in the respective grades immediately before commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.- Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.- For the purpose of this rule, "SHAPE-I" shall mean-

(i) medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eyesight

(ii) functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

(a) fit for all duties any where.

(b) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears or eyes.

(c) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have Limitations of employability at high altitude (above 2,700 metres Extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

- (d) temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick Leave.
- (e) permanently unfit for duties.

7. **Superannuation.**- An Officer appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that an officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

8. **Ineligibility of aliens** .- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules :

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Liability of service.**- Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

11. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Inspector General (Veterinary)	01*(2013) *Subject variation dependent on workload	General Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial (Combatised)	Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) plus Grade Pay Rs. 8900/- (Plus non-practicing allowance at the rate specified by the Government from time to time)	Selection	Not applicable	Not applicable

165 GI/13-3

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Promotional Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment	<p>Promotion:- Commandant(Veterinary) in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.8700/- with two years regular service in the grade subject to a total of twenty years Group 'A' service.</p> <p>Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Special Secretary or Secretary, Ministry of Home Affairs : Chairman 2. Director General, Sashastra Seema Bal : Member 3. Director General of any other Central Police Organization : Member 4. Joint Secretary (Police) Ministry of Home Affairs : Member 	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the said pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.</p> <p>Note-3: Should be in the medical category SHAPE-1.</p> <p>Deputation: Officers of the other Central Armed Police Forces:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the Pay Band-4 (37400-67000) Grade pay Rs. 8700.</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or equivalent from a recognized University.</p> <p>Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>Note-2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note-3: The Upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-4: For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p> <p>For Ex-servicemen deputation or re-employment. By deputation or re-employment of released or retired officers of Armed Forces who have held analogous post or equivalent rank in the Veterinary service.</p> <p>Note:- The officers of Armed Forces due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to the post in the organization.)</p> <p>Should be in the Medical category SHAPE-I.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Commandant (Veterinary)	03*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatized)	Pay Band -4 (Rs. 37400-67000) plus Grade Pay Rs. 8700/- (Plus non- practicing allowance at the rate prescribed by the Government from time to time)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation or reemployment	<p>Promotion.—(i) Deputy Commandant (Veterinary) in Pay Band-3 having Grade Pay of Rs.6600/- of Sashastra Seema Bal with ten years regular service in the grade shall be eligible for promotion.</p> <p>(ii) Existing Second-in-command (Veterinary) in Pay Band-3 having Grade Pay of Rs.7600/- with five years regular service in the grade shall also be eligible for promotion.</p> <p>Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <p>1. Director General, Sashastra Seema Bal : Chairman</p> <p>2. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member</p> <p>3. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs : Member</p> <p>4. Deputy Inspector General Sashastra Seema Bal : Member</p>	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the said pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note-3: Should be in the medical category SHAPE-1.</p> <p>Deputation: Officers of the other Central Armed Police Forces.-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the Pay Band-3 (15600-39100) Grade Pay Rs.7600.</p> <p>(b) possessing a Bachelor's degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or equivalent from a recognized University.</p> <p>Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>		

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<p>Note-3: The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note-4: For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p> <p>For Ex-servicemen deputation or re-employment.</p> <p>By deputation or re-employment of released or retired officers of Armed Forces who have held analogous post or equivalent rank in the Veterinary service.</p> <p>Note:- The Officers of Armed Forces due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to the post in the organization.)</p> <p>Should be in the Medical category SHAPE-I.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Commandant (Veterinary)	06*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized)	Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) plus Grade Pay Rs. 6600/- (Plus non-practicing allowance at the rate prescribed by the Government from time to time)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8) Not applicable	(9) Not applicable	(10) By promotion	(11) Promotion:- Assistant Commandant (Veterinary) in Pay Band-3 having Grade Pay of Rs.5400/- of Sashastra Seema Bal with six years regular service in the grade. Note-1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note-2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the said pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note-3: Should be in the medical category SHAPE-1	(12) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director General, Sashastra Seema Bal : Chairman 2. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs : Member 4. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member	(13) Not applicable
-----------------------	-----------------------	----------------------	---	--	------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Commandant (Veterinary)	33* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatized)	Pay Band- 3 (Rs.15600-39100) plus Grade Pay Rs. 5400/- (Plus non-practicing allowance at the rate prescribed by the Government from time to time)	Not applicable	Male and female candidates between 23 and 35 years of age. (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time).	<p>(I) Essential: (a) Possessing a Bachelor's Degree in Veterinary Sciences and Animal Husbandry or equivalent from a recognised University with registration in the Veterinary Council of India.</p> <p>(i) Physical Standard : (a) For male: Height : 165 cms. Chest : 81 cms. (unexpanded), : 86 cms. (expanded) Weight: 50 Kgs. (Subject to the proportionate of height)</p> <p>(b) For female: Height : 157 cms. Chest : Not-applicable. Weight: According to height but not less than 46 Kgs.</p> <p>Note-1: The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 160 cms for male and 152 cms for female in respect of candidates belonging to the races, namely, Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies,* persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North-Eastern States and the State of Himachal Pradesh.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																	
					<p>Note-1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangl Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).</p>	<p>Note-2: The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 157.5 cms for male and 149.5 cms for female in respect of Adivasis or Tribals including Mizos and Nagas.</p> <p>Note-3: The minimum standard in so far as it relates to chest measurements may be relaxed to 79-84 cms for men having height 160 cms belonging to hill areas of Garwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dorgras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North-Eastern States and 77 cms unexpanded and 82 cms expanded for Adivasis or Tribals for those having height 157.5 cms.</p> <p>(ii) Medical Standard:</p> <table><tr><td>Eye Sight (with or without glasses)</td><td>Distant vision</td><td>Near vision</td></tr><tr><td>Better</td><td>Worse</td><td>Better</td></tr><tr><td>Eye</td><td>Eye</td><td>Eye</td></tr><tr><td>6/6</td><td>6/12</td><td>JI</td></tr><tr><td></td><td></td><td>JII</td></tr></table> <p>or</p> <table><tr><td>6/9</td><td>6/9</td></tr></table> <p>The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose Veins or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich-Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any Physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>	Eye Sight (with or without glasses)	Distant vision	Near vision	Better	Worse	Better	Eye	Eye	Eye	6/6	6/12	JI			JII	6/9	6/9
Eye Sight (with or without glasses)	Distant vision	Near vision																					
Better	Worse	Better																					
Eye	Eye	Eye																					
6/6	6/12	JI																					
		JII																					
6/9	6/9																						

(8)	Not applicable	(9)	Two years	(10)	By direct recruitment	(11)	Not applicable	(12)	Group 'A' Promotion Committee considering confirmation consisting of -	(13)	Not applicable
				<p>Note : Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government:-</p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis;</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column (7).</p>				<p>1. Director General, Sashastra Seema Bal : Chairman</p> <p>2. Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member</p> <p>3. Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs : Member</p> <p>4. Deputy Inspector General Sashastra Seema Bal : Member</p>			

[F. No. 4/3/SSB/CSC/BN/SFS/11]

K. K. MITTAL, Jt. Secy. (Police-II)